

थाना शाहबाद:- ट्राली को चोरी करने वालों को भेजा जेल:-

थाना शाहबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बडागांव से दो लडकों द्वारा एक ट्राली चोरी कर ली थी। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 04-06-2021 को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस सम्बंध में थाना शाहबाद, रामपुर पर मु0अ0सं0-226/21 धारा 379,411 भादवि का अभियोग वादी श्री इकबाल पुत्र अनवार निवासी ग्राम बडागांव थाना शाहबाद, रामपुर की तहरीर के आधार पर पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01-राज पुत्र रमी उर्फ रतनलाल निवासी ग्राम बडागाँव थाना शाहबाद, रामपुर। उम्र-23 वर्ष

02-अमित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कासमनगला थाना शाहबाद, रामपुर। उम्र-24 वर्ष

बरामदगी:- चोरी की एक ट्राली बरामद हुई।

थाना शहजादनगर:-05 किलो 300 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 04-06-2021 को थाना शहजादनगर रामपुर पुलिस द्वारा जसीम पुत्र इन्तेजार निवासी ग्राम नोगवा थाना शहजादनगर, रामपुर को नोगवा चैराहे से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 05 किलो 300 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ। इस सम्बंध में थाना शहजादनगर, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।



थाना शाहजादनगर :-05 किलो 300 ग्राम डोडा चूर्ण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना टाण्डा:-01 अह नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 04-06-2021 को थाना टाण्डा, रामपुर पुलिस द्वारा मौहम्मद मारूफ पुत्र तस्लीम निवासी मोहल्ला राण्ड कस्बा व थाना टाण्डा, रामपुर को ठण्डी सड़क कस्बा टाण्डा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अह नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा, रामपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई:-मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की कोशिश करने में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 28-05-2021 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा दिनेश पुत्र उत्तम नाथ ग्राम व थाना पटवाई, रामपुर को पटवाई तारक स्कूल के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पटवाई पर पंजीकृत मु0अ0सं0-83/2021 धारा 307,323,504,34 भादवि व 3(1)(अ),3(1)(द) अनुसूचित जाति/जनजाति में वांछित चल रहा था।

थाना गंज:-कुकर्म का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार-

फैजान पुत्र अब्दुल हन्नान निवासी नरीमन चैराहा काठगोदाम थाना काठगोदाम जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड हाल निवासी मौ0 घेर सैफुद्दीन ऊँची मस्जिद थाना गंज, रामपुर द्वारा थाना गंज क्षेत्र के रहने वाले 02 बच्चों के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में दिनांक 03-06-2021 को थाना गंज पर मु0अ0सं0-204/21 धारा 292ए,377,511,504,506 भादवि व 9एम/10 पाँक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 04-06-2021 को थाना गंज पुलिस द्वारा अभियुक्त फैजान उपरोक्त को बिलासपुर गेट से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना बिलासपुर:-ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार-

दिनांक 03-06-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा जंगल ग्राम आनन्दनगर का मझरा से ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 740 रूपये नकद बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना बिलासपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- राकेश पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम अफसर नगर थाना बिलासपुर, रामपुर।

02- गुड्डू पुत्र शन्नू खां निवासी मौ0 भट्टी टोला कस्बा व थाना बिलासपुर, रामपुर।

03- सिराज अहमद पुत्र रियाज अहमद निवासी मौ0 गौडी कस्बा व थाना केमरी, रामपुर।

थाना अजीमनगर:- गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण 02 अद्द नाजायज तमंचे मय 05 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 04-06-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण को ग्राम पैगा यूनिवर्सिटी रोड से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अद्द नाजायज तमंचे मय 05 कारतूस जिन्दा बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना अजीमनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01- परवेज पुत्र सज्जाद निवासी काशीपुर थाना गंज, रामपुर।

02- निजामुद्दीन पुत्र छिद्दन सेख निवासी ढक्का हाजीमनगर थाना अजीमनगर, रामपुर।

बरामदगी-

01- अभियुक्त परवेज के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए।

02- अभियुक्त निजामुद्दीन के कब्जे से एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुए।

कार्यवाही-

01- मु0अ0सं0-165/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम परवेज।

02- मु0अ0सं0-166/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम निजामुद्दीन।



थाना अजीमनगर :- गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 02 अभियुक्तगण 02 अद्द नाजायज तमंचे मय 05 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार।

थाना गंज:-रिमाण्ड पर लिये गये 02 अभियुक्तगणों की निशादेही पर चोरी का माल बरामद

दिनांक 13-05-2021 को समय करीब 10:00 बजे मुजफ्फर अली पुत्र श्री मुमताज अली निवासी ग्राम काशीपुर थाना गंज, रामपुर के मकान से रईस पुत्र रफीक व रफी पुत्र इतवारी तथा 02 अन्य नामजद अभियुक्तगण समस्त निवासीगण ग्राम काशीपुर थाना गंज, रामपुर द्वारा जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी, गैस सिलेण्डर, सिफिंग फैन, इन्वर्टर व पानी की मोटर चुरा लेने के सम्बन्ध में थाना गंज, रामपुर पर मु0अ0सं0-184/21 धारा 457,380 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। दो अभियुक्तगण द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। थाना गंज पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तगण को रिमाण्ड पर लिया गया, जिनकी निशादेही पर वादी श्री मुमताज अली उपरोक्त के मकान से चोरी किये गये सामान में से एक गैस सिलेण्डर, इन्वर्टर, एक सिफिंग फैन, पानी की मोटर को जोहर रोड पर पुराने निर्माणाधीन मैरिज हाॅल के पास से बरामद किया गया।



थाना गंज:-रिमाण्ड पर लिये गये 02 अभियुक्तगणों की निशादेही पर चोरी का माल बरामद